

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो के लिए मार्केटिंग अवॉर्ड जीता

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (10 मार्च, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने [इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो \(Innovation District video\)](#) के लिए, इकोनॉमिक डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ कॅनेडा (ए.डी.ए.सी.) (Economic Developer's Association of Canada) (EDAC) मार्केटिंग कॅनेडा अवॉर्ड (Marketing Canada Award) जीता है।

सिटी लगातार, इनोवेशन और उद्यमी ईकोसिस्टम बनाकर, अपने डाउनटाउन का पुनर्निर्माण कर रही है और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिकतम लाभ ले रही है: ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Brampton Innovation District)। अक्टूबर 2021 में, ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Brampton Economic Development Office) ने, इस इनोवेशन ईकोसिस्टम के प्रभावों को उजागर करने के लिए, अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) वीडियो की शुरुआत की थी।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का स्पष्ट ध्यान, स्टार्ट-अप स्केलिंग, निवेश आकर्षण और प्रतिभा विकास पर है और यह उद्यमियों और नए कारोबारों के लिए लोकल सहायता प्रदान करता है। यह नई टेक्नोलॉजी बनाने में, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों की सहायता के लिए संसाधन भी पेश करता है। 2019 में समझौते शुरू करके, सिटी ने अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों के द्वारा किए जा रहे निवेशों में, लगभग 55.2 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ, लगभग 20.5 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता की है।

2019 से 2021 तक, छह नई साझेदारियों ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में अपनी मौजूदगी स्थापित की है। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में साझेदारों में शामिल हैं, उद्यमी, बिजनेस इन्क्यूबेशन, पोस्ट-सेकंडरी ट्रेनिंग और एक्स्लरेटर जगहों, जैसे ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton), रायरसन-संचालित वेंचर ज़ोन (Ryerson-led Venture Zone), अल्टीट्यूड एक्स्लरेटर (Altitude Accelerator), फाउंडर इंस्टीट्यूट (Founder Institute), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) और रोजर्स साइबरसिक्योर कॅटालिस्ट हेडक्वार्टर्स एंड एक्स्लरेटर (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator)। शेरिडन एज (Sheridan Edge), ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में महत्वपूर्ण साझेदार हैं।

टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटीज (Term of Council Priorities) पर आधारित, जारी परिवर्तनशील पहलकदमियां, संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने, आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने और ब्रैम्पटन को इनोवेशन कॉरिडोर (Innovation Corridor) पर बेजोड़ पोजीशन पर लाने में मदद करेंगी।

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान, सिटी ने डाउनटाउन निवेश को बढ़ाने और ब्रैम्पटन के केंद्र में नए विकास को बढ़ाने के लिए काम जारी रखा है। सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, इसकी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी (Economic Recovery

Strategy) का मुख्य हिस्सा है और लगातार वृद्धि के लिए तैयार किए गए सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करके सिटी को महामारी के प्रभावों से निकलने में मदद करेगा, जैसे साइबरसिक््योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, [www.bramptoninnovationdistrict.com](http://www.bramptoninnovationdistrict.com) पर जाएं या सिटी का इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट [वीडियो \(video\)](#) देखें।

### इकोनॉमिक डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ कॅनेडा और मार्केटिंग कॅनेडा अवॉर्ड्स के बारे में

ए.डी.ए.सी., लगभग 1,000 मेम्बर्स वाली, पूरे कॅनेडा में प्रत्येक प्रांत और इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए, कॅनेडा के आर्थिक विकास पेशेवरों की राष्ट्रीय एसोसिएशन है। यह एसोसिएशन समझती है कि किसी कम्युनिटी की मार्केटिंग, आर्थिक विकास संबंधी पेशे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्केटिंग कॅनेडा अवॉर्ड्स, उन संगठनों के लिए खुले हैं, जो कॅनेडा के निवासियों के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ, कॅनेडा के प्रांतों, इलाकों, रीजनस, शहरों, टाउन्स और क्षेत्रों का प्रचार और मार्केटिंग करते हैं।

### हवाले

“ब्रैम्पटन में रोमांचक परिवर्तन जारी है और हमारे साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे, हम हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट को एक बड़े शिक्षा और इनोवेशन केंद्र में विकसित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर हमारी अलग पहचान बनाने में, मार्केटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम जारी निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्रैम्पटन की कई क्षमताओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें गर्व है कि इकोनॉमिक डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ कॅनेडा ने हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो को मान्यता दी है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन को इनोवेशन और उद्यमी केंद्र के तौर पर स्थापित करना जारी रखकर, हम वृद्धि संचालित कर रहे हैं, जो हमारे निवासियों, विद्यार्थियों और कारोबारों को लाभ पहुंचाएगी। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो, हमारे इनोवेशन ईकोसिस्टम के प्रभावों को उजागर करने का शानदार काम करता है और यह हमारी सहायता करेगा क्योंकि हम हमारे डाउनटाउन के केंद्र में लगातार निवेश पैदा कर रहे हैं। इसे, इकोनॉमिक डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ कॅनेडा के द्वारा मान्यता मिलना सम्मान की बात है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाईस 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम हमारे डाउनटाउन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिकतम लाभ ले रहे हैं और हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की मुख्य पहलकदमियों को आगे बढ़ाकर संपूर्ण कम्युनिटीज बना रहे हैं। ब्रैम्पटन का अर्थ है कारोबार, और हमारा इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो, यह दर्शाने का शानदार काम करता है। हमारे बहुमूल्य इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे, हम हमारे शहर के बिल्कुल बीचोंबीच, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और इनोवेशन केंद्र बना रहे हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम लगातार, हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए, हमारे शहर को शिक्षा और इनोवेशन केंद्र में विकसित करने में नेतृत्व कर रही है। कैंनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारी मुख्य जगह, बहुमूल्य साझेदारियों, कुशल और विविध टैलेंट पूल के साथ, हम हमारे डाउनटाउन की क्षमता का अधिकतम लाभ ले रहे हैं, जो हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो में स्पष्ट रूप में दिखाया गया है।”

- *क्लेयर बार्नेट (Clare Barnett), डायरेक्टर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)